SADHNA BROADCAST LIMITED

[Formerly known as Chirau Broadcast Network Limited]

CIN: L92100DL1994PLC059093

Date:06th November, 2020

To

Bombay Stock Exchange Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001

Metropolitian Stock Exchange Of India Limited Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot No. C 62, G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400098, India

Sub: Newspaper Advertisement under Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

With reference to the above captioned subject, please find enclosed herewith the clippings of the English newspaper "Financial Express" and Hindi Newspaper "Jansatta" dated 05th November, 2020in which notice for Board Meeting has been published. The meeting of the Board will be held, on, Wednesday, 11th November 2020 at 4:30 P.M. at registered office of the Company to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter andhalf year ended 30th September, 2020and any other businesses as may be considered necessary.

This is for your kind information and record please.

Thanking You. .

For and on behalf of

For Sadhna Broadcast Limited

Name: Tajinder Kaur

DIN: 06799570

Designation: Managing Director

Address: 24/27 Front Side, West Patel Nagar Delhi -110008

Phone: 91-11-23552627, Fax No.: 91-11-23524610

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

Registered Office: B-2/8 SAFDARJUNG

ENCLAVE NEW DELHI-110029

CIN-L74899DL1988PLC031191

Notice is hereby given pursuant to Regulation

29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing

quarter ended on 30" September, 2020.

For Hindustan Adhesives Limited

Regd. Office:-25,Bazar Lane, Bengali Market,

New-Delhi-110001

CIN: L15142DL1991PLC046469;

Tel. No.: 011-43585000, Fax: 0141-43585015.

E-mail: cs@superiorindustrial.in,

Website: www.superiorindustrial.in

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29

read with Regulation 47 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of

Directors of the Company is scheduled to be held on

Thursday, 12th November, 2020 at 1010,10th Floor,

Vijaya Building, Barakhamba Road, New Delhi-

110001 to consider and approve the unaudited

Standalone & Consolidated Financial Results of the

Company for the quarter and half year ended 30"

September, 2020 and other matters as per the

Company Secretary

and Compliance Officer

For Trinity League India Limited

(Company Secretary & Compliance officer)

Piyush Kumar Srivastava

BSE Limited-www.bseindia.com.

Place: New Delhi

Date: 04.11.2020

agenda item.

(www.superiorindustrial.in).

Date: 04.11.2020

Place: New Delhi

FINANCIAL EXPRESS

RAJASTHAN PETRO SYNTHETICS LIMITED CIN-L17118RJ1983002658 Rend. Office: Flat No. 201,8-B, Oasis Tower New Navratar Complex, Bhuwana, Udaipur-313001 (Rajasthan) E mail: investors@rpsl.co.in, Website: www.rpsl.co.in NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 11" November, 2020 at 03.00 p.m., inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the guarter and half year ended 30" September, 2020. The notice is also available on website of the company www.rpsl.co.in and also on the website of the stock By Order of the Board

For Rajasthan Petro Synthetics Limited Place: New Delh B.R. Goyal Date: 04.11.2020 Sharpline Broadcast Limited

(Formerly known as Archit Holdings & Credits Limited) Regd. Office: 37th, Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Paharganj, Delhi-110055 (E) sharplinebroadcastlimited@gmail.com. (W)www.sharplinebroadast.in CIN: L22100DL1990PLC039464,

Phone: 011-23552627

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday 11th November, 2020 at 3.00 P.M. at the Regd. Office of the Company, interalia, to consider and take on record the unudited Financial Results for half year and quarter ended 30*September, 2020 and any other businesses

For Sharpline Broadcast Limited Place: New Delhi (Shalu Garg) Date: 04.11.2020 Company Secretary M.No: A44353 C-304, Sansad Vihar Apartments, Plot No.-02 Sector-3, N.S.L.T. Dwarka-110078

By order of the Board

las may be considered necessary.

SABOO BROTHERS LIMITED Regd. Off. : 332, B-Block, Anand Plaza, University Road, Udaipur RJ 313001 IN (CIN: L01100RJ1979PLC001851) NOTICE Pursuant to Regulation 29, 33 of the Securities

and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, we wish to inform you that the Board Meeting of the Company will be held on Thursday, November 12, 2020 at the registered office of the Company at 4.00 p.m., inter alia, to consider and approve the following: a) The Un-Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2020 and Limited

Review report thereon; b) Re-constitution of Board: and c) Any other items.

The said intimation is available on the Company's website at www.saboobrothers.com and on the website of stock exchange www.bseindia.com

Place: Udaipur For Saboo Brothers Limited Date: 04/11/2020 **ROOP LAL BALAI** Whole Time Director, DIN-08451425

MISHKA EXIM LIMITED Regd. Office: G-31, Ground Floor, Cross River Mall, CBD Ground, Shahdara,

New Delhi-110032 CIN: L51909DL2014PLC270810 website- www.mishkaexim.com E-mail - MISHKAEXIM@GMAIL.COM

NOTICE Pursuant to Clause 29 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements),

2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, November 11, 2020 at 03:30 P.M at registered office of the company inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended on September 30, 2020 By Order of the Board

For Mishka Exim Limited

Date: 04.11.2020 Place:New Delhi

LEASING LIMITED

Regd. Office: D2-11, Budh Vihar,

Phase-1, New Delhi 110086 (DL)

E-mail: sns.prop.ltd@gmail.com

CIN: L65922DL1985PLC020853

Website: www.snsind.com

NOTICE

Notice is hereby given that a

meeting of Board of Directors

will be held on Thursday the

12th Day of November, 2020

to consider & approve the Un-

audited Financial Results of the

company for the quarter and

For SNS Properties And Leasing Ltd

SRI AMARNATH FINANCE LIMITED

Regd. Office: 4883-84, Second Floor, Main

Road Kucha Ustad Dag, Chandni Chowk,

Delhi-110006

CIN:L74899DL1985PLC020194

Email:amarnath01finance@gmail.com

Contact: 011-23953204

Pursuant to Regulation 47(1)(a) of SEBI

(LODR) Regulation, 2015, notice is hereby

given that a meeting of Board of Directors of

the Company has been scheduled to be held

on Wednesday, the 11th November, 2020 to

consider and approve the un-audited

Financial Results for the quarter and Six

The said notice can be accessed at

Company's website at http://

www.sriamarnathfinance.in/indexf39a.

html?event=Board%20Meeting%20

Notice and also on BSE website at

Place: Delhi (CS & Compliance Officer)

UFLEX

'A part of your daily life'

UFLEX LIMITED

CIN: L74899DL1988PLC032166

Read, Off.: 305. 3" Floor, Bhanot Corner.

Pamposh Enclave, Greater Kailash-I,

New Delhi-110 048, Phone: +91-11-26440917

26440925, Fax: +91-11-26216922

Website: www.uflexltd.com

Email: secretarial@uflexltd.com

Notice

Notice is hereby given that a Meeting o

Board of Directors of UFLEX Ltd., will be

held on Wednesday 11" November, 2020

at NOIDA inter-alia to consider and

approve, the Unaudited Financia

Results for the Quarter & Six Months

the website of the company a

www.uflexltd.com and on the websites of

the stock exchange www.bseindia.com

Sr. V.P. (Legal) & Company Secretary

Add : C-001 Krishna Apra Residency

For UFLEX LIMITED

AJAY KRISHNA

ACS No.3296

This intimation is also available or

ended 30" September, 2020.

and www.nseindia.com

For Sri Amarnath Finance Limited

(Sumit Bajaj)

www.bseindia.com.

Date: 04.11.2020

month ended on 30th September, 2020.

By order of the Board

(Harwinder Kaur)

half year ended 30.09.2020.

Place: New Delhi

Date: 04.11.2020

Raineesh Gupta Managing Director DIN: 00132141

SNS PROPERTIES AND

04.11.2020

declaration of the aforestated results.

Financial Results of the Company.

DHANVANTRI JEEVAN REKHA LTD. e-mail: dhanvantrihospital@gmail.com; website: www.djrl.org.in

NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is schedule to be held on Thursday, the 12" Day of November, 2020 at 12:00

p.m. at Meerut inter alia to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30° September 2020. The said notice is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com), where the Company's securities are listed and shall also be available on the website of the Company (www.djrl.org.in)

(PREMJIT SINGH KASHYAP) Director

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED CIN: L74899DL1989PLC035140 Regd Off.: Kanchenjunga, 5th Floor, 18, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Tel. No: 011- 43745000 E-mail: dsil@dcmsr.com Website: www.dcmsr.com NOTICE

NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 12.11.2020, inter-alia, to consider and approve unaudited financial results (both standalone & consolidated) for the quarter and half year ended on 30.09.2020. For further details please refer www.dcmsr.com/www.bseindia.com

For DCM Shriram Industries Ltd.

Y.D. Gupta

Company Secretary FCS 3405 Date: 04.11.2020 MODI NATURALS LIMITED Regd. Office: 405, Deepali Building, 92

NOTICE NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on November 10, 2020, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the guarter ended September 30, 2020. The said Notice of Board Meeting is available on the website of the Company and BSE at www.modinaturals.org, www.bseindia.com.

Place: New Delhi Ankit Agarwal Date: 04.11.2020

--sd----Company Secretary INTEC CAPITAL LTD Regd. Office: 708, Manjusha Building, 57, Nehru Place, New Delhi-110019 APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESION NOTICE Whereas, The undersigned being the authorized officer of the INTEC CAPITAL LTD under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest (Act, 2002(54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with frule 3) of the security interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice dated07thFeb 2018calling upon the Borrower (1) M/s World Electronic Zone (Borrower) (2) Mr. Rail kumarMaheswari (Co-Borrower/Mortgagor) (3) Ms. Ajay Kumar (Co-Borrower) (4) Mrs. Kiran Kumar (Co-Borrower) (5) M/s Hi-king Electonics& Furniture (Co-Borrower) (6) Mrs. Sangeeta Maheshwari (Co-

days from the date of the receipt of the said notice. The Borrower/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below pursuant to the order dated 19.09.2020 passed by Ld. CMM, Shahdara and in exercise of the powers conferred on the undersigned under sub-section (4) of section 13 of act read with rule 8 of the security interest Enforcement Rules, 2002, on this 2nd day of November of the year 2020.

The Borrower/mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and dealings with the property will be subject to the charge of the INTEC CAPITAL LTD for an amount of 2,18,43,396/- (Rupees Two Crore Eighteen Lac Forty Three Thousand Three Hundred Ninety Six) as on the date given in the Demand Notice and

13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Description of immovable Property

All that part and parcel of residential/commercial Property Land/Building/Structure and Fixtures situated at Property Number 366/12/Old No. - 1449/3, Plot No. -3), 100 Foota Road, Durgapuri Extr., Shahdara, Delhi -Bounded by -

On the North by-Road 15 ft On the South by-Road 100'ft On the East by- Property No. { 366/13} Old No. 1449/2

On the west by - Property No.{ 366/11} Old No. 1449/4 Date: 05-11-2020 Place: Nehru Place, New Delhi

MADHAV MARBLES & **GRANITES LIMITED** Regd. Off.: First Floor, Mumal Towers

16, Saheli Marg, Udaipur-(Raj.) 313001 CIN: L14101RJ1989PLC004903. Web: www.madhavmarbles.com Email: investor.relations@madhavmarbles.com

> Tel: 0294-2981666 NOTICE

ereby given that a meeting of the Board of Pursuant to Regulation 29 of the SEB Directors of the Company will be held on Fhursday,12*November, 2020 at 03:00 P.M. at (Listing obligations and Disclosure the Regd. Office of the Company, interalia, to Requirements) Regulations, 2015, we would consider and take on record the Unaudited like to inform that the meeting of the Board of Financial Results for the quarter and half year ended 30" September, 2020 and any other Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, November 11, 2020 to businesses may be considered necessary. transact the following matters . To consider and approve the Unaudited

Leading Leasing Finance and

Investment Company Limited Regd. Office: 611, Sixth Floor, Pragati

Tower 26 Rajendra Place Opp. Metro Station New Delhi 110008

(E) leadingleashing@gmail.com, (W)www.llflltd.com CIN: L65910DL1983PLC016712,

hone: 011-25876635

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation

47 of the SEBI (Eisting Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, notice is

Place: New Delhi

Date: 04.11.2020

By order of the Board For Leading Leasing Finance and

8, Girirai, 2rd Floor, Khotochiwadi, V.P. Rd,

RAMSONS PROJECTS LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC063708

Regd. Off.: 815, 8th Floor, Hemkunt Chambers,

89. Nehru Place. New Delhi-110019

Website: www.ramsonsprojects.com,

Email ID: corprelations@ramsonsprojects.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation

47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosu

Requirements) Regulations 2015, notice

hereby given that the Meeting of the Board

held on Monday. November 09, 2020.

Sector-38, Gurugram-122001 inter alia

consider and approve the Un-audited Financia

Results of the Company for the Half Year ended

on 30-09-2020 and to consider any other matter

The information contained in this notice is also

available on the website of the Company i.e.

(www.ramsonsprojects.com) and the website of

For Ramsons Projects Limited

Company for the guarter and half year ended 30° September 2020.

www.trinityasia.in and also, on Stock Exchange website www.bseindia.com.

Megha Goe

TRINITY LEAGUE INDIA LIMITED

Regd. off.: A-23, Mandakini Enclave, Alaknanda, GK, II, New Delhi-110019

Ph: 011-40562329, website: www.trinityasia.in; e-mail: trinityleague@trinitygroup.ind.in-

CIN No. L93000DL1988PLC031953

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company

scheduled to be held on Thursday, the 12" Day of November, 2020 at Noida, Uttar Pradesh, inter alia,

o consider and approve the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the

The information contained in this notice will also available on the Company's website

A INFRASTRUCTURE LIMITED

Regd. Office: Hamirgarh-311 025, Distt. Bhilwara, Rajasthan

Website: www.ainfrastructure.com, Email:cs@kanoria.org,

CIN: L25191RJ1980PLC002077, Phone: 01482-286102, FAX: 01482 286104

NOTICE OF THE BOARD MEETING

U. P. HOTELS LTD.

CIN: L55101DL1961PLC017307

Phone: 011-23722596-8, Fax: 011-23312990

Email: clarkssuryakiran@yahoo.co.in, Website: www.hotelclarks.com

NOTICE

the stock exchange i.e. (www.bseindia.com)

with the permission of the chair.

Place: Gurugram

Date: 04-11-2020

Place: Noida

Date: 04.11.2020

Directors of the Company is scheduled to be

Corporate office of the Company SAS Tower,

Investment Company Limited

Mumbai, 400004, Maharashtra

Whole-Time Director

DIN: 06792048

Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and period ended September 30, 2020 To consider any other business with the

permission of the Chair.

Place: Udaipur

MASTER TRUST LIMITED

Regd. Office: Master Chambers, R/O: 118/610 A, Kaushalpuri - 208012 E Mail: prabhatsecurities@gmail.com, Ludhiana-141001 (Pb) Website: www.prabhatsecuritiesitd.com

Website: www.mastertrust.co.in

Friday the 13th Day of November, 2020 to consider & approve the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the company for the quarter and half year ended 30.09.2020.

Place: Ludhiana Company Secretary

Date: 04.11.2020 & Compliance Officer (CIN: U24111RJ1974PLC005789)

Email: bhagwatigases@gmail.com Website: www.bglgroup.in

NOTICE

permission of chair. The information contained in this notice is also available on the Company's website

> **RAKESH SAMRAT BHARDWAJ** Chairman & Managing Director DIN: 00029757

on the website of the Company at www.hotelclarks.com

Place: New Delhi

Date : 04.11.2020

delisting process initiated by the Company.

Regd. Office: Building No. 23, Nehru Place, New Delhi- 110019,

Prakash Chandra Prusty (Company Secretary)

PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Regulation 31(2) read with Regulation 12(3) of the Insolvency and

Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF STAKEHOLDERS OF PREMSONS SUPER STEELS PRIVATE LIMITED - IN LIQUIDATION

Pursuant to Regulation 31(2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, Public Announcement is hereby made that the List of Stakeholders of Premsons Super Steels Private Limited - in Liquidation ("Corporate Debtor") prepared by the Liquidator, has been e-filed with the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench III, New Delhi on 04.11.2020. As there is no functional website of the Corporate Debtor, hence the List of Stakeholders can be viewed on the following link: http://embeeip.com

MOHIT CHAWLA

In the matter of M/s PREMSONS SUPER STEEL PRIVATE LIMITED IP Registration no. IBBI/IPA-001/IP-P00524/2017-2018/10949 SCO-2935-36, Level-1, Sector-22C, Chandigarh. Reg. Email-id: ipservices@embeegroup.in

DATE: 04.11.2020

PLACE: CHANDIGARH Him Teknoforge Limited

Correspondence Email-id: ip.premsonssupersteel@gmail.com

(Formerly known as Gujarat Automotive Gears Limited) CIN: L29130HP1971PLC000904 Registered Office: Village Billanwali, Baddi , Distt: Solan (H.P)-173205 Telephone No.:+91(1795) 245466 Fax No.:+91(1795)245467 E-mail: gujarat.gears@gmail.com, Website: www.gagl.net NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (Listing Regulations), Notice is hereby given that Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 12" day of November, 2020 at 12:00 noon at Corporate Office of the Company situated at S.C.O. 19, First Floor, Sector-7 C, Chandigarh, inter-alia to consider and approve Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on

may also be accessed on the Stock Exchange website at http://www.bseindia.com. Further, the Trading Window in respect of dealing in Equity Shares of the Company is already closed for all the Insiders, Directors, Connected Persons and Designat Employees of the Company, and shall open 48 hours after conclusion of the Board For Him Teknoforge Limited

Abhishek Misra

(Formerly known as Gujarat Automotive Gears Limited)

Date: 04.11.2020

Date: 04.11.2020

Place: New Delhi

Place: Baddi

Company Secretary Manager Secretarial and Legal

ARGL Limited CIN: U74899DL1995PLC070717 Form No. INC-26

[Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Before the Central Government, Through Regional Director -Northern Region

In the matter of Sub-Section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013, and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of ARGL Limited having its Registered Office at Building 108 B,

3rd Floor, Madangir Village, New Delhi-110062Applicant Company NOTICE

Notice is hereby given to the general public that the Company proposes to make an application to the Central Government (through Regional Director - Northern

Region) under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on 13th May, 2020 to enable the Applicant Company to change its Registered Office from the 'NCT of Delhi' to 'State of Haryana'. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the

Registered Office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/ her objections supported by an affidavit stating the nature of his/ her interest and grounds of opposition to the Regional Director -Northern Region at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, Cgo Complex, New Delhi - 110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered Office at the address Building 108B, 3rd Floor, Madangir Village, New Delhi-110062. For and on behalf of the

> ARGL Limited Sd/-

JAGAN LAMPS LIMITED d Office: Narela Piao Manihari Road Kundli, District- Sonipat, Haryana-131028 Tel.: +91 88148-05077, Email: cs@jaganlamps.com Web: www.Jaganlamps.com CIN: L31501HR1993PLC033993

Obligations and Disclosure Requirements) ON 11.11.2020 Regulations, 2015, that a meeting of the Board Notice is hereby given that pursuant to of Directors of the Company will be held on regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Wednesday, 11" November, 2020 at 2:00 P.M. Disclosure Requirements) Regulations, 2015 inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for that a Board Meeting of JAGAN LAMPS LIMITED will be held on Wednesday 11th The information contained in this notice is also November, 2020 to inter alia, consider, approve available on the Company's website at www.baglaand take on record the Un-audited Financia group.com and the website of the Stock Exchange Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2020.

M.S. Bagla SANDEEP YADAV Date: 04th Nov. 2020 Managing Director Place: Kundli (Sonipat) Company Secretary DIN-01425646 SUPERIOR INDUSTRIAL ENTERPRISES LIMITED Sadhna Broadcast Limited

For Jagan Lamps Limited

(Formerly known as Chirau Broadcast Network Limited) Regd. Office: 37, Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Paharganj, Delhi- 110055 (E) cbnl.delhi@gmail.com, (W)www.sadhnabroadcast.com CIN: L92100DL1994PLC059093;

fursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Eisting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice i ereby given that a meeting of the Board o prectors of the Company will be held or Vednesday, 11"November,2020 at 04.30 P.M t the Regd. Office of the Company, interaliaTo onsider and take on record the Unaudited inancial Results for Quarter and half year ended 30" September, 2020 and any other businesses as may be considered necessary.

By order of the Board

The said notice is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the Place: New Delhi Company's securities are listed and shall also be Date: 04.11.2020

available on the website of the Company For Superior Industrial Enterprises Limited

> ∕ Internati⊕nal Ltd. CIN No.: L25209RJ2009PLC030620 Regd. Office: 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road, Jaipur-302006 (Raj.) India.

> Pursuant to Regulation 47(1) (a) of the SEBI (Listing

Regulations, 2015, Notice is hereby given that a neeting of Board of Directors of the Company will be eld on Thursday, 12th day of November, 2020 at 10:00 A.M. at its Registered Office 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road, Jaipur, inter alia, to consider and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2020. This information is also available on the website of

the company at www.vinayakpolycon.com and the company are listed at www.bseindia.com.

Rashmi Agarwal Date: 04.11.2020 Place: Jaipur

Regd. & H.O. 46, Dohil Chambers, 4th Floor, Nehru Place, New Delhi 110 019 CIN: L74899DL1962PLC003634 **Ph**: 91-11-46579476

E-mail: admin@everesttools.com, Web-site: http://www.everesttools.com Notice of the Board Meeting Notice is hereby given that pursuant to the

website of the Stock Exchanges where the shares of the company are listed a www.bseindia.com and also on the website

Place: New Delhi Company Secretary Date: 4th November, 2020

COMPANY LIMITED CIN: L74899DL1937PLC000478) Registered Office: 86, JANPATH. NEW DELHI-110001 (INDIA)

Email: delsafe@dsdgroup.co.in, Website: www.dsdgroup.co.in Phone: 011-43580400, 23323223 NOTICE

Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations ind Disclosure Requirement) Regulations, 2015, it is hereby informed hat the meeting of the Board of the Directors of M/s The Delhi Safe Deposit Co. Ltd. is scheduled to be held on Nednesday, 11* November, 2020 at 11:30 AM (Through Video Conferencing) inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the 2" Quarter and half year ended 30' September 2020, in compliance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement Regulations, 2015 and to take up allied

urther, in accordance with the provision of Securities and Exchange Board of India Prohibition of Insider Trading Amendment) Regulations, 2018 the Trading Window" close period has commenced from Thursday, 1" October 2020 for all Directors, Officers and designated Employees of the Company till Friday, 13" November, 2020.

The Delhi Safe Deposit Co. Ltd.

Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company

ection 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

Extra Ordinary General Meeting held on 12th

office at the address mentioned below: D-11 S.M.A Co-Op Industrial Area G.T. Karnal For and on behalf of the Applicant

copy to the applicant company at its registered

Date:-05.11.2020 Ashish Jain Place: New Delhi DIN: - 00849914 D-11 S.M.A Co-Op Industrial

Area G.T. Karnal Road New Delhi - 110033

Rakesh Darbari (Whole-Time Director) DIN: 06596678 New Delhi

Phone: 91-11-23552627 NOTICE

For Sadhna Broadcast Limited (Tajinder Kaur) Managing Director DIN: 06799570

24/27 Front Side, West Patel Nagar Delhi 110088 VINAYAK P@LYC®N

Tel. No. +91-141-2377007 NOTICE

Obligations and Disclosures Requirements

also on the website of BSE Ltd. where the shares of By Order of the Board,

Company Secretary & Compliance Officer HINDUSTAN EVEREST TOOLS LIMITED

For: A Infrastructure Limited Kuldeep Kaw DIN: 07882201

provisions of Regulation 29 read with regulation 47 and other applicable regulation Regd. Office: 1101, Surya Kiran, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held or We wish to inform you that pursuant to Regulation 29 & 30 of the Securities and Exchange Wednesday, 11th November, 2020 at the Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the

registered office of the Company inter-alia, to meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday consider, approve & adopt the Un-Audited the 11" November, 2020 inter alia to consider and approve the un-audited financial results Financial Results for the Quarter and hal for the quarter and half year ended 30th September, 2020 and matters related to voluntary year ended on 30th September, 2020 and any other item of business as mentioned The notice is also available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and For U. P. Hotels Limited This intimation is also available on the

> of the company i.e. www.everesttools.com. For Hindustan Everest Tools Limited Sonam Gupta

THE DELHI SAFE DEPOSIT

ursuant to Regulation 29 (1) (a) read with

The said notice may be accessed on the Company's website at http://www.gagl.net and

Place: New Delhi (Vijay Kumar Gupta) Dated: 04/11/2020 Managing Director/ CEO Form No. INC-25A

Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs Northern Region In the matter of the Companies Act, 2013,

In the matter of M/s Andru Products Limited having its registered office at D-11 S.M.A Co-Op Industrial Area G.T. Karnal Road New Delhi-110033, Notice is hereby given to the general public

that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the

give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be

Road New Delhi - 110033

day of October 2020 to enable the company to

affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional director Northern region B-2 Wing, 2nd Floor Parvavaran Bhawan, CGO Complex New Delhi-110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a

Place: Meerut Date: 04.11.2020 Form No. INC-26 (Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Before the Central Government Regional Director, Northern Region, New Delhi

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of ULTIMATE INVESTOFIN LIMITED (CIN: U65933DL1991PLC266069) having its Registered Office at

D-26,DSIIDC Complex, Kirti Nagar,

New Delhi-110015Applicant Company / Petitioner NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution bassed at the Extra Ordinary General Meeting neld on Wednesday, 22nd July, 2020 to enable

the company to change its Registered office from

"National Capital Territory of Delhi" to the

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or sent by registered post of his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her nterest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex New Delhi-110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered Office at he address mentioned below:

D-26,DSIIDC Complex, Kirti Nagar, New Delhi-110015 For & on behalf of Applicant ULTIMATE INVESTOFIN LIMITED

GURPREET SINGH (Director) DIN: 07021196 Place: New Delhi

STARLIT POWER SYSTEMS LIMITED Registered Office- A-1/51, LGF Safdarjung Enclave,

CIN-L37200DL2008PLC174911 E-mail- info@starlitgroup.net

Website - http://www.starlitpower.com

Ph.: +91 11 26102570, 46027970, 46037870

Pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the company is Schedule to be held on Thursday, the 12" day of November, 2020, inter-alia to consider and approve Un-audited Financial Results for the company for the quarter ended as on 3011 September, 2020.

http://www.starlitpower.com and may also be accessed on the Stock Exchange website at https://www.bseindia.com Pursuant to the "Starlit code to regulate, monitor and report trading by Directors, Promoters, Designated Employees and Connected Person of the Company and the Material Subsidiaries of the company' the Trading Window Close Period has commenced

from October 1, 2020 and will end 48 hours after the date of

The said notice is also available at company's website at

M. No - 55438 ALCHEMIST REALTY LIMITED Regd. Office: Building No. 23, Nehru Place, New Delhi- 110019

CIN: L21100DL1983PLC334800: website- www.alchemistrealty.com,

E-mail - investors.realty@alchemist.co.in,

Phone No. 011-40600800, Fax No. 011-40600888

For Starlit Power Systems Limited

Lavan Raheja

Company Secretary

NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is

hereby given that Meeting of the Board of Directors of the Company is

scheduled to be held on Thursday, the 12th Day of November, 2020, at

12:30 P.M. inter-alia, to consider and approve the Unaudited Standalone

/Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year Ended on September 30, 2020 and any other business matter(s) with the permission of the chair.

(www.alchemistrealty.com) as well as on the website of stock exchangei.e BSE(https://www.bseindia.com). Pursuant to Code of conduct to regulate, monitor and report trading by all the designated persons and their immediate relatives, the trading window close period has been commenced from 01st October, 2020 and will reopen on

The above details may be accessed on the website of the Company

14th November, 2020 i.e., after 48 hours of declaration of the Unaudited

Date- 03-11-2020 Anup Nargas Place- New Delhi

For Alchemist Realty Limited

Kanpur Regional Office: 117/H-1/240, Pandu Nagar Kanpur-208005 Head Office: 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021

(Enforcement) Rule, 2002. immovable property mortgaged/charged to the secured creditor, the constructive possession of which has been taken by the authorized officer of Union Bank of India (Secured Creditor), will be sold on "As is Where is." "As is What is." and "Whatever

mentioned Borrower(s) & Guarantor(s). The Reserve Price & the Earnest Money Deposit or also mentioned hereunder.

Arya Samai Mandir, Station Road, Distt. Mainpuri (U.P.) (2) Smt. Mithlesh Kumari Yadav W/o Shri Rajendra Singh Yadav, R/o Nava Devpura, Part-1, Anshik Opp. Arya Samaj Mandir, Station Road, Distt. Mainpuri (U.P.) (3) Shri Anil Kumar Agarwal S/o Shri Anand Swaroop Agarwal, R/o 233, Narayan Nagar, Punjabi Colony, Distt. Mainpuri (U.P.) (4) Shri Sunil Kumar Agarwal, S/o Shri Anand Swaroop Agarwal, R/o 233, Narayan Nagar, Punjabi Colony, Distt. Mainpuri (U.P.), Name of Guarantors: (1) Smt. Rekha Rajendra Singh Yadav W/o Shri Rajendra Singh Yadav, R/o P-4 Building, Empire Estate, Plot 1201, 1202, 12th Floor, Pimpari, Distt. Pune (Maharastra). (2) Smt. Shobha Agarwal W/o Shri Anil Kumar Agarwal, R/o 233, Narayan Nagar, Punjabi Colony, Distt, Mainpuri (U.P.) (3) Smt, Anju Agarwal W/o Shri Suni Kumar Agarwal, R/o 233, Narayan Nagar, Punjabi Colony, Distt. Mainpuri (U.P.) (4) Shri Rajendra Singh Yadav S/o Shri Atar Singh Yadav, R/o (a) 6th Floor, ION 7, Mahalaxmi Heights (Opp. Sterling Honda Showroom) Morwadi, Pimpari, Distt. Pune (Maharastra) (b) Naya Devpura, Part-1, Anshik Opp. Arya Samaj Mandir, Station Road, Distt. Mainpuri (U.P.) (5) Smt. Mithlesh Kumari Yadav W/o Shri Rajendra Singh Yadav, R/o Naya Devpura, Part-1, Anshik Opp. Arya Samaj Mandir, Station Road, Distt. Mainpuri (U.P.) (6) Shri Anil Kumar Agarwal S/o Shri Anand Swaroop Agarwal, R/o 233, Narayan Nagar, Punjabi Colony, Distt. Mainpuri (U.P.) (7) Shri Sunil Kumar Agarwal, S/o Shri Anand Swaroop Agarwal, R/o 233, Narayan Nagar, Punjabi Colony, Distt. Mainpuri (U.P.).

Date & Time of E-Auction: 26-11-2020 at 11.00 am to 1.00 pm Reserve Price: Rs. 391.85 Lac, Earnest Money to be deposited Rs. 39.19 Lac. For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in https://www.unionbankofindia.co.in//english/TendelViewAllAuction.aspx Property: (2) Free hold Premises No. 1340/1 situated at Station Road, Mohalla-Uttari Chhapatti, Mainpuri (U.P.) in the name of Sri Rajendra Singh Yadav, Area: 60.26 sq.mtr., Bounded: North: House of Subodh Kumar Gupta, South: Station Road then Christian Inter

(U.P.) in the name of Sri Rajendra Singh Yadav, Area: 2060 sq.mtr., Bounded: North: Radharaman Road (Bhogaon) ki Road, South

Reserve Price: Rs. 71.39 Lac, Earnest Money to be deposited Rs. 7.14 Lac. For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in https://www.unionbankofindia.co.in// english/TendelViewAllAuction.aspx For Registration and Login and Bidding Rules visit https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

Place : Mainpuri

Nehru Place, New Delhi-110019 to consider and approve the Un-Audited (CIN: L15142DL1974PLC007349) Financial Statements of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2020. The trading window in respect of company's securities shall open after 48 hours of declaration of financial result of the Company for the Quarter and half year ended 30th September, 2020. The said Notice may be accessed on the Company's website at http://www. prabhatsecuritiesItd.com and may also

be accessed at CSE & MSEI website at http://www.cse-india.com & http://www.msei.in For Modi Naturals Ltd For Prabhat Securities Limited Ramakant Kushwaha Place: Kanpur

Date: 14.11.2020 (Managing Director)

Eighteen Lac Forty Three Thousand Three Hundred Ninety Six)within 60

Borrower),(Loan agreement NoLNNOIO3415-160006015) to repay the

amount mentioned in the notice being 2,18,43,396/- (Rupees Two Crore

The Borrower's attention is invited to provision of sub section (8) of Section

Authorized Officer INTEC CAPITAL LTD ALCHEMIST LIMITED

CIN: L72200DL1988PLC192643, Website - www.alchemist.co.in,

E-mail - investors@alchemist.co.in,

Phone No. 011-40600800, Fax No. 011-40600888 NOTICE

September 30, 2020 and any other business matter(s) with the permission The above details may be accessed on the website of the Company BSE (https://www.bseindia.com) and NSE (https://www.nseindia.com) Pursuant to Code of conduct to regulate, monitor and report trading by all the

14th November, 2020 i.e., after 48 hours of declaration of the Unaudited Financial Results of the Company. For Alchemist Limited

DIN: 03609482 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **(S)** Union Bank

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

College, East: Plot of Smt. Sharda Devi & Smt. Sunita, West: Aarazi of Rakesh Kumar Jain. Date & Time of E-Auction: 26-11-2020 at 11.00 am to 1.00 pm

Place : New Delhi E-8. Sector-61 Date: 05.11.2020 flancialexp.epapr.in

Other House, East: Road then House of Ravindra Singh, West: House of Yadav Ji.

read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements yearly ended 30" September, 2020 For Dhanvantri Jeevan Rekha Limited Regulate, Monitor and Report Trading by Insider and BSE circular dated 2nd April, 2019 regarding

Regulations, 2015, a Meeting of Board of Directors of Nam Securities Limited is scheduled to be held on Friday, November 13, 2020 at its registered office at 213, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001 at 02.00 p.m. inter-alia, to consider and approve Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter and half Further, in accordance with the provision of SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018, Company's Code of Conduct to

PRABHAT SECURITIES LIMITED

CIN: L22022UP1982PLC005759

Ph: 512-2526347,

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with

Exchange Board of India (LODR)

Regulations, 2015, NOTICE is hereby

NAM SECURITIES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC350531

Read, Off: 213: Arunachal Building, 19.

Barakhamba Road, New Delhi-110001

Email Id: compliance@namsecurities.in.

Website: www.namsecurities.in,

Tel: 011-23731122/44

Notice is hereby given Pursuant to Regulation 29

(https://www.bseindia.com/) and on the Company's website (http://www.namsecurities.in/). For: NAM Securities Limited

Date: 05.11.2020

Place: Delhi

public on November 13, 2020.

clarification on trading restriction period, the trading window shall continue to be closed till the

Sd/-

(Kiran Goyal)

Managing Director

DIN: 00503357

completion of 48 hours after the results are made This intimation is available on BSE website

By Order of the Board

For Madhav Marbles & Granites Ltd. Priyanka Manawat

Date: November 04, 2020 Priyanka Manawas Company Secretary

3rd Floor, 19, Feroze Gandhi Market, CIN: L65991PB1985PLC006414 Tel. No.: 0161-5043500

E-mail: secretarial@mastertrust.co.ir egulation 47 of the Securities and NOTICE given that (06/2020) Board Meeting of the Company is scheduled to be held at its Notice is hereby given that a meeting Regd. Office, Kanpur on Thursday 12th

September, 2020 at 12,30 P.M., inter alia of Board of Directors will be held on

> By order of the Board For Master Trust Limited (Vikas Gupta)

BHAGAWATI GAS LIMITED Regd. Office: Banawas, Khetri Nagar, Jhunihunu-333504 (Rajasthan) Corp. Office: S-492/A Greater Kailash - I lew Delhi - 110048, Phone: +91-11 4912071

Notice is hereby given in pursuant of the Regulation 29 & Regulation 33 read with Regulation 47 and other applicable Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulation of the SEBI (Listing Obligations Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the and Disclosure Requirements) Company will be held on Thursday, 12th November, 2020, at 3.00 p.m. at the Corporate Office of Regulations, 2015 that a Meeting of the the Company, at A-9A, Green Park Main, New Delhi -110016 to inter-alia consider and approve Board of the Directors of Bhagawati Gas Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30" September, Limited is scheduled to be held on Thursday, November 12, 2020 at 02.00 P.M. at the Corporate Office of the Place : Bhilwara company situated at S-492/A, Greater Date: 04.11,2020 Kailash - I . New Delhi - 110048 inter-alia to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020, and any other matter with the

www.bglgroup.in. For Bhagawati Gas Limited

Place: New Delhi | Date: 04.11.2020

Bikram Bhattacharva

Whole Time Director

DIN: 03595530

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 12th Day of November, 2020, interalia, to consider and approve the Unaudited Standalone /Consolidated

Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year Ended or

www.alchemist.co.in) as well as on the website of stock Exchanges i.e. designated persons and their immediate relatives, the trading window close period has been commenced from 01st October, 2020 and will reopen on

Date- 03.11.2020 Whole Time Director Place- New Delhi

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable assets under the securitisation and Reconstruction of Financial assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 Read with Proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described

there is" on the date mentioned below, for recovery of dues as mentioned hereunder to Union Bank of India from the below

Branch Name: Specialised Mid Corporate • Address: 15/200, Ballabh Arcade, Civil Lines, Kanpur, Branch Head: Shri Pyare Lal • Mob.: 9870110222

Name of Account : M/s Sai Foundation - Unit Siddhant School of Medical Sciences and Hospital, Address : Mauza

Nauner, Distt. Mainpuri (U.P.), Name of Directors: (1) Shri Rajendra Singh Yadav S/o Shri Atar Singh Yadav, R/o (a) 6th Floor, ION 7, Mahalaxmi Heights (Opp. Sterling Honda Showroom) Morwadi, Pimpari, Distt. Pune (Maharastra) (b) Naya Devpura, Part-1, Anshik Opp. O/s Amount as per Demand Notice: Rs. 10,39,07,174.50 + Interest & other Expenses. Property: (1) Plot No. 23 situated at Free hold Premises, Mauja Kharpari (Near Uttar Pradesh Bhumi Sudhar Nigam Office), Mainpuri

Authorized Officer, Union Bank of India

CIN: L74900DL1992PLC047055 पंजी.कार्या: बी-97, ऑल हैवन्स बिल्डिंग वजीरपुर, रिग रोड, दिल्ली-110052 Tel: 11 27372194/011-47500737 ई-मेल आईडी: info@rciind.com, Web: www.rciind.com

सूचना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 विनियमन 29 के अनुपालन एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार, 12 नवम्बर, 2020 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही/ छमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलॉन व समेकित) पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे

यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट https://www.rciindia.com तथा बीएसई की वेबसाईट https://bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम 2015 समय-समय पर यथा-संशोधित के अनुपालन में कम्पनी के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिये आचार संहिता के अनुसार कम्पनी का ट्रेडिंग विण्डो हमारी जानकारी तिथि 30 सितम्बर, 2020 के अनुसार गुरुवार, 1 अक्टूबर, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडएलॉन एवं समेकित) की घोषणा उद्घोषणा के 48 घंटे की समाप्ति तक बंद रहेंगे आरसीआई इंडस्ट्रीज एण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिए

तिथि: 4.11.2020 ज्योति शर्मा स्थानः नई दिल्ली कम्पनी सचिव एम.नं. ए 55135

दिनांक: 04.11.2020

दिनांक : 04.11.2020

दिनांक : 04.11.2020

स्थान : पटियाला

परिणाम।

दिनांक :03.11.2020

वेबसाइट पर भी देखे जा सकते है।

दिनांक :03.11.2020

स्थान: नई दिल्ली

परिणाम।

स्थान: नई दिल्ली

स्थान : पटियाला

हस्ता

आरएसएलएच ऑटो सीट द्रिम्स प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U74999PB2013PTC049784)

कंपनी अधिनियम. 1956 के तहत निर्गमित एक कंपनी)

डी—37, फोकल प्वाइंट, नामा, पटियाला, पंजाब — 147201

सूचना

आरएसएलएच ऑटो सीट ट्रिम्स प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") के असुरक्षित लेनदारों को सूचित किय

जाता है कि इस योजना को वापस लेने के लिए एक आवेदन 2020 के सीए नंबर 364 में सीए (सीएए) नंबर

माननीय एनसीएलटी चंडीगढ पीठ ने दिनांक ०४ ११ २०२० के आदेश के तहत इसका प्रकाशन करने और

आम जनता और असुरक्षित लेनदारों को सूचित करने के लिए कहा है कि होटल क्लेरियन इन एम्प्स, मे

सरहिंद रोड, पटियाला—147001 में 06.11.2020 को दोपहर 01:00 बजे आयोजित होने वाली निर्धारित

हंसवाहिनी ऑटो इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U34300PB2012PTC049670)

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्गमित एक कंपनी)

डी-36, फोकल प्वाइंट, नामा, पटियाला, पंजाब - 147201

सूचना

हंसवाहिनी ऑटो इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") के असुरक्षित लेनदारों को सूचित किया जाता है

कि इस योजना को वापस लेने के लिए एक आवेदन 2020 के सीए नंबर 364 में सीए (सीएए) नंबर

माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ पीठ ने दिनांक 04.11.2020 के आदेश के तहत इसका प्रकाशन करने और

आम जनता और असुरक्षित लेनदारों को सूचित करने के लिए कहा है कि होटल क्लेरियन इन एम्प्स, मेन

सरहिंद रोड, पटियाला-147001 में 06.11.2020 को सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली निर्धारित

कम्फर्ट द्रिम्स प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U50400PB2012PTC049809)

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्गमित एक कंपनी)

डी-36, फोकल प्वाइंट, नामा, पटियाला, पंजाब - 14720⁻

सूचना

कम्फर्ट ट्रिम्स प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") के असुरक्षित लेनदारों को सूचित किया जाता है कि इस

योजना को वापस लेने के लिए एक आवेदन 2020 के सीए नंबर 364 में सीए (सीएए) नंबर 4/Chd/Pb/2020

माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ पीठ ने दिनांक 04.11.2020 के आदेश के तहत इसका प्रकाशन करने औ

आम जनता और असुरक्षित लेनदारों को सूचित करने के लिए कहा है कि होटल क्लेरियन इन एम्प्स, मेन

सरहिंद रोड. पटियाला—147001 में 06.11.2020 को दोपहर 03:00 बजे आयोजित होने वाली निर्धारित

अलकेमिस्ट लिमिटेड

पंजीकृत कीयालय: बिल्डिंग नं.23 , नेहरू पलेस, नई दिल्ली – 110019

CIN: L72200DL1988PLC192643, Website - www.alchemist.co.in,

E-mail - investors@alchemist.co.in,

Phone No. 011-40600800, Fax No. 011-40600888

नोटिस

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी के नियमन 47 (लिस्टिंग के दायित्व और

प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम,2015 के साथ 29 के नियम 29 को पढ़ा गया

है, इस बात पर ध्यान दिया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 12

नवंबर,2020 को आयोजन होने वाली है। अंतर - आलिया, कंपनी के कार्टर और हाफ

ईयर के लिए कंपनी के अनऑडिटेड स्टैंडअलोन / कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्टस

पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए, 30 सितंबर,2020 को और किसी भी

उपरोक्त विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.alchemist.co.in) के साथ-साथ

स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई (https://www.bseindia.com) और एनएसई

सभी नामित व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों द्वारा व्यापार को विनियमित करने,

निगरानी करने, और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता के उद्देश्य से, व्यापार खिड़की

की करीबी अवधि 01 अक्टूबर,2020 से शुरू की गई है और 14 नवंबर,2020 को

घोषित होने के 48 घंटे बाद फिर से खुल जाएगी। कंपनी के गैर-वित्तीय वित्तीय

अलकेमिस्ट रियल्टी लिमिटेड

पंजीकृत कीयालयः बिल्डिंग नं.23 , नेहरू पलेस, नई दिल्ली – 110019

CIN: L21100DL1983PLC334800; website- www.alchemistrealty.com,

E-mail - investors.realty@alchemist.co.in,

Phone No. 011-40600800, Fax No. 011-40600888

नोटिस

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी के नियमन 47 (लिस्टिंग के दायित्व और

प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम,2015 के साथ 29 के नियम 29 को पढ़ा गया है,

इस बात पर ध्यान दिया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरूवार, 12

नवंबर 2020 को आयोजन होने वाली है। दोपहर 12:30 बजे अंतर - आलिया, कंपनी के

कार्टर और हाफ ईयर के लिए कंपनी के अनऑडिटेड स्टैंडअलोन/ कंसॉलिडेटेड

फाइनेशियल रिजल्ट्स पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए, 30 सितंबर,2020

उपरोक्त विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.alchemistrealty.com) के

साथ - साथ स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई (https://www.bseindia.com) की

सभी नामित व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों द्वारा व्यापार को विनियमित करने,

निगरानी करने, और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता के उद्देश्य से, व्यापार खिडकी

की करीबी अवधि 01 अक्टूबर,2020 से शुरू की गई है और 14 नवंबर,2020 को

घोषित होने के 48 घंटे बाद फिर से खुल जाएगी। कंपनी के गैर-वित्तीय वित्तीय

को और किसी भी अन्य बिजनेस मैटर (चेयर) की अनुमति से समाप्त हुआ।

(https://www.nseindia.com) की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते है।

अन्य बिजनेस मैटर (चेयर) की अनुमति से समाप्त हुआ।

असुरक्षित लेनदारों की बैठक, जो श्री संजय बंसल की अध्यक्षता में होनी थी, रद्द की जाती है ।

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ बेंच के समक्ष पेश किया गया है ।

असुरक्षित लेनदारों की बैठक, जो श्री संजय बंसल की अध्यक्षता में होनी थी, रद्द की जाती है ।

4/Chd/Pb/2020 माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ बेंच के समक्ष पेश किया गया है।

असरक्षित लेनदारों की बैठक, जो श्री संजय बंसल की अध्यक्षता में होनी थी, रह की जाती है ।

4/Chd/Pb/2020 माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ बेंच के समक्ष पेश किया गया है।

दीप एग्रो इंडस्टीज प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट सं. 135, पॉकेट-I जसोला, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली-110025 दूरभाष: +91 9821214987

ई-मेलः deepagroindltd@gmail.co सीआईएन: U011112DL1990PTC041764 [कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से अन्य राज्य में स्थानान्तरित करने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) एवं कम्पनी (निगमन) निया 2014 के नियम 30(5)(क) के अनुसार सूचना] केन्द्र सरकार उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा

4) एवं कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 के उपनियम (5) के उपबन्ध (क) के मामले में दीप एग्रो इंडस्टीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसव गंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं. 135, पॉकेट−I, जसोल

नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली-110025 पर है ..याचिकाकर्ता लद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 र साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 अधीन केन्द्र सरकार के समक्ष आवेदन फाइल करने क पस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्याल 'रा.रा.क्षे. दिल्ली'' से "महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई" स्थानान्तरित करने के लिए 2 नवम्बर 2020 क आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित संकल्प सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन क

पुष्टि/अनुमोदन की माँग की गयी है। म्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-2 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज क सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रक और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अप-आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सचना के प्रकाशन क तारीख से चौदह दिनों के भीतर बी-2, विंग, दूसरी मंजि पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110003 पते पर भेज सकते हैं और इसकी एक प्रा आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृ कार्यालय के पते पर भी भेजेगा :

प्लॉट सं. 135, पॉकेट-I, जसोला, नई दिल्ल त्रिश्रणी दिल्ली-110025 आवेदक के लिए तथा उसकी ओर श्री रमेश कालचंद जैन

दिनांक: 05.11.2020 निदेशव स्थानः दिल्ली डीआईएन: 08441169

आरएसएलएच ऑटो सीट ट्रिम्स प्राइवेट लिमिटेड

हंसवाहिनी ऑटो इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड

पी बरनबाल

पी बरनवाल कन प्रतिनिधि

पी बरनवाल

अधिकृत प्रति

कम्फर्ट द्रिम्स प्राइवेट लिमिटेड

कृते अलकेमिस्ट लिमिटेड

पुरे समय के लिए निदेशक

कृते अलकेमिस्ट लिमिटेड

पूरे समय के लिए निदेशक

夏./-

(अनुप नरगस)

DIN: 03609482

(बिकम भड़ाचार्य)

DIN: 03595530

夏./一

Further complete details are available a the website of the Company i.e. For SMC Global Securities Limited

(Suman Kumar) E.V.P. (Corporate Affairs) & Company Secretary Date: November 4, 2020 Place: New Delhi Corporate Identity Number (CIN: L74899DL1994PLCO63609) Registered Office- 11/6B, Shanti Cha Pusa Road, New Delhi-110005

Ph: +91-11-30111000, 40753333

शुद्धिपत्र

दल फोटो लिमिटेड के बोर्ड की बैठक की सूच

जो इस समाचार पत्र में 4.11.2020 को प्रकाशित की गई

थी, में बोर्ड की बैठक की तिथि 11 अक्टबर, 2020 की

NOTICE FOR BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29, 33, 47 and other

applicable Regulations of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements

Regulations 2015, notice is hereby given tha

a meeting of the Board of Directors of the

Company is scheduled to be held on

Wednesday, 11th day of November, 2020 at

4:45 P.M. via Video Conference to, consider

and approve, inter-alia the un-audite

standalone as well as consolidated quarter

financial results of the Company for the

guarter ended on 30th September, 2020.

जगह 11 नवम्बर, 2020 पढ़ें।

असुविधा के लिये खेद है।

Fax: +91-11-25754365 E-mail: smc@smcindiaonline.com Website: www.smcindiaonline.com

Moneywise. Be wise CIN: L74899DL1994PLC063609

एमको इंडिया लिमिटेड

जीकृत कार्यालय : 10795, शॉप नं. 7, झंडेवालान रोड, रेक्सीन बाज़ार, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 CIN: L74899DL1987PLC029035

फोन नं : 011 - 23636320 ई—मेल : amco.india@ymail.com वेबसाइट : www.amcoindialimited.com सूचना

तद्द्वारा सूचित दी जाता है कि भारतीय प्रतिभूत एवं वेनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकर अपेक्षाए) विनियमावली. २०१५ के विनियम २९ एवं अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल बैठक बघवार, 11 सितम्बर, 2020 को सी-53-54 सेक्टर-57, फेज-III, जिला गौतमबुध नगर, नोएड उत्तर प्रदेश-201301 रिधत कम्पनी के कार्पोरेट ाय में आयोजित की जाएगी. जिसमें, अन्य विषयों के साथ, 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त **अ**माही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए जाएंगे।

यह स्वना कम्पनी की वेबसाइट www.amcoindialimited.com, और बीएसई इंडिया की वेबसाइट www.bseindia.com. पर भी उपलब्ध

वास्ते एमको इंडिया लिमिटेड हस्ता/-

राजीव गुप्ता स्थान : नोएडा, यू.पी.

दिनांक : 03.11.2020 पूर्ण कालिन निदेशक

सार्वजनिक सूचना केन्द्र सरकार, कम्पनी रजिस्टार, कानपुर के समक्ष सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) तथा सीमित दायित्व भागीदारी नियमावली, 2009 के नियम 17 के मामले में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, धारा 13 (3) के मामले में

9190) जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-4, सेक्टर-2 नोएडा, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301 में है, वे याचिकाकर्ता/ आवेदव

पास इन्फो सॉल्यूशन्स एलएलपी (LLPIN: AAP

तद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उत्तर पटेश" राज्य से "हिल्ली राज्य" में उसवे पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए अनुमि प्राप्त करने हेतु यह एलएलपी सीमित दायित्व भागीदा अधिनियम २००९ की धारा 13 (3) के अंतर्गत कम्प रजिस्ट्रार, कानपुर के पास आवेदन करने का प्रस्ता

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के इस परिवर्तन से या केसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके उप वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक एलएलपी क उसकी एक प्रति के साथ इस सचना की प्रकाशन क तिथि से इक्कीस (21) दिनों के भीतर अपने हित व पकति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एव शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कम्पनी रजिस्ट्रार डाक से भेजें:

कृते एवं के लिये हस्ता./ वानः उत्तर प्रदेश तिथि: 4.11.2020 पदनामित पार्टन DIN: 0850989

साई इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN: L74999DL1991PLC045678 पंजी. कार्या.: 302, 3रा तल, सी-2/4, कम्युनिटी सेन्टर, अशोक विहार, फेज-2, नर्ड दिल्ली-110052 Email: saiindustries1609@gmail.com

सूचना सेबी (सचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठि वेनियमन 29 के अनुपालन में एतदुद्वारा सुचित किय

जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठव मंगलवार, 10 नवम्बर, 2020 को 3.00 बजे अप, र वेडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की जायेगी जिस अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप छमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथ् अनुमोदन किये जाएंगे। ानः कम्पनी की प्रतिभतियों में कारोबार के लि सायडर टेडिंग निषेध के लिये आंतरिक आचार संहित

क अनुसार कम्पनी की प्रतिभृतियों में कारोबार के लिय ट्रेडिंग विण्डो 1 अक्टूबर, 2020 से इन्सायडरों के लि परोक्त परिणामों की घोषणा के उद्देश्य से बंद रहेंगे। उक्त सचना स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट तथा कम्पन की वेबसाईट पर भी देखी जा सकती है। साई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लि

हस्ता. तिथि: 03.11.2020 नीरज कुमार सिंह स्थानः दिल्ली

प्रबंध निदेशव DIN :0023339

बीसीएल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड CIN: L65100 DL 1985PLC021467 जीकृत कार्यालय: 510, अरूणाचल बिल्डिंग 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001 ई-मेल : bclenterprisesItd@gmail.com

वेबसाइटः <u>bclenterprisesItd.in</u> सम्पर्क: 011-23320370 मंडल की बैठक की अग्रिम सूचना

नेबी (सूची दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियम 29 साथ में पठित विनियमन 47(1) (ए) वे

मनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती के कम्पनी के 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तेमाही एवं अर्धवार्षिक के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ मन्य तथ्यों पर विचार, अनुमोदन एवं रिकार्ड ग्रहण करने हेतु बीसीएल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड ('दि कम्पनी') के निदेशक मंडल की रक बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 510, पांचवी मंजिल, अरूणाचल बिल्डिंग, 19 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001 में बधवार. 11 नवम्बर. 2020 को सायं 06:00 बजे भायोजित की जायेगी।

कृते बीसीएल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड हस्ता०/-महेन्द्र कुमार शारदा थान : नई दिल्ली (प्रबन्ध निदेशक

तिथि: 4 नवम्बर: 2020

DIN:00053042

सोलिस मार्केंटिंग लिमिटेड सूर्यो मार्केटिंग नाम से जाना जाता था, CIN: L29130DL1985PLC021802 इत कार्यालय : हाउस नंबर-4346, ग्राउंड पंजीकृत कार्यालय : हाउस नंबर—4346, ग्राउंड पलीर, गली नं, 4शी अनसारी रोऊ, दरिया गंज नह दिल्ली — 10002 वेबसाईट : www.suryamkt.com ई मेल आई डी : suryamarket@yahoo.com

सूचना

सूचना एतदहाप सुधित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47()(के) के अनुसरण में निदेशक मंडल की वेठक बुधवार, 11 नवस्त्र, 2020 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साध-साध्य 30 सितस्य, 2020 को दिमाड़ी और छमाड़ी के तिए अलेखाप्सीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर प्ताथ-साथ 30 सितन्बर, 2020 को तिमाही और छमाहैं के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार का उन्हें रिकार्ड में लिया जाएगा। कथित सूचना एवं विसीय परिणामों की प्रति कम्पनी क् कृत्ते सोलिस मार्केटिंग लिमिटेड ताक । ८ . इस्ता / -वीरेंद्र सिंह राणा निवेंशक

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 04.11.2020

जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड कार्यालयः 574, दूसरी मंजिल, मेन रोड चिराग दिल्ली, नई दिल्ली-110017 ई-मेल: jmgcorp@yahoo.com वेबसाइटः www.jmgcorp.in

फोन : (011)-41834411, 41834111 फैक्स : 011-41834112 सीआईएनः L31104DL1989PLC362504 बोर्ड बैठक की सूचना

गरतीय प्रतिभृति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 वे साथ पठित विनियम 29 के अनुसार एतद्वारा सूचना व जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2020 समाप्त दूसरी तिमाही हेतु लेखापरीक्षित वित्ती रिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए ''जेएमर्ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड'' के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 11 नवम्बर, 2020 को जे-8, ग्रीन पार्क क्सटेंशन, नई दिल्ली-110016 पर 12.00 बजे दोपहर आयोजित की जायेगी।

कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.jmg orp.in तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइ ww.bseindia.com से भी एक्सेस की जा सकत

कृते जेएमजी कॉपॉरेशन लिमिटे

निशा कुमार थानः नर्ड दिल्ली (कम्पनी सचिव तिथि: 04.11.2020 सदस्यता सं. एसीएस 4421

प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड CIN: L65910DL1995PLC064310 पंजी. कार्या.: एस-2, भूतल, प्लॉट नं. ए-2/3,

लूसा टावर, आजादपुर, दिल्ली-110033 दरभाष : 011-40424242. ई-मेल आईडी : info@progressivefinlease.in वेबसाइट : www.progressivefinlease.in सुचना

तेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित के विनियमन 29 अनुपालन में एतदृद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनं के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 10 नवम्बर 000 को विहियों कान्फेंसिंग द्वारा आयोजित की जायेर्ग जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त **ङमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार त**थ अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे। पुनः हम आपको सचित करना चाहते हैं कि सेबी

(इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) के लिये आंतरिक आचार संहित अनुसार कम्पनी की प्रतिभृतियों में कारोबार के लिये टेडिंग विण्डो 1 अक्टबर, 2020 से उक्त परिणामों की घोषणा के लिये बंद हैं।

क्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट तथा साथ ही स्टॉक ख़्सचैंज की वेबसाईट पर भी देखी जा सकती है।

प्रॉग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड के लि हस्ता./ तिथि: 03.11.2020 राजीव जैन

एमसन्स अपेरेल्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : ऑफिस नं. 303, दूसरा तल, प्लॉट नं. 13-ए. वीर काम्प्लेक्स वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर दिल्ली – 110092 CIN: L74899DL2003PLC122266

सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण
बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015
के विनियम अ(1)(क) के अनुसरण में निदेशक मंडल
की बैठक बुधवार, 11 नवम्बर, 2020 को कम्मनी के
पंजीकृत कार्यात्वय में आयोजित की जाएगी जिसमें
अन्य बातों के साथ-साथ 30 सिताबर, 2020 को
तिमाही और छमाही के तिए अलेखापरीक्षित वित्तीय
परिणामों पर विचार कर उन्हें रिकार्ड में लिया जाएगा।
कथित सूचना एयं वित्तीय परिणामों को प्रति कम्पनी
की वेबसाइट www.msonsepparels.com और स्टॉक
एक्समेंज वेबसाइट www.msonsepparels.com और स्टॉक

कृते एमसन्स अपेरेल्स लिमिटेड हस्ता / – अगस्टीन कच्छप निदेशक दिनांक : 04.11.2020 स्थान : नई दिल्ली

NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD. 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi-110025

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to clause 29 of the SEBI (LODR), Regulations, 2015, a meeting of the be held on Thursday, the 12th day of November, 2020 at the Registered approve and take on record the un-audited financial results for the uarter and half year ended on 30th ieptember, 2020.

Vandana Gupta

Place: New Delhi. Date: 04.11.2020 Company Secretary

जेडीएस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड CIN: L65999DL1984PLC018035

पंजी. कार्याः 307, लूसा टावर, आजादपुर, दिल्ली 110033, वेबसाईटः www.jdsfinance.in ई-मेल आईडीः info@jdsfinance.in, फोन नं.: 011-40424242, फैक्स: 011-40424200 सूचना

सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित वेनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किय जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 11 नवं. 2020 को 3.00 बजे अप. में विडिये . जन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त छमाई के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन

पुनः कम्पनी की प्रतिभृतियों में कारोबार के लिये -सायडर टेडिंग निषेध के लिये आंतरिक आचार संहित के अनुसार कम्पनी की प्रतिभृतियों में कारोबार के लिए टेडिंग विण्डो इन्सायडरों के टेडिंग के लिये 1 अक्टबर 2020 से उक्त परिणामों की घोषणा के उद्देश्य से बंद

किये जाएंगे।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट तथा साथ ही स्टॉक क्सचैंज की वेबसाईट पर देखी जा सकती है। जेडीएस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के लिये हस्ता/-

तिथि: 3.11.2020 अजय जैन प्रबंध निदेशक UNITED DRILLING TOOLS LIMITED

Read, Off.: 139A, First Floor, Antriksh Bhawan, 22, Kasturba Gane New Delhi-110001 Phone No. 011-43502330, 0120-4842400.

CIN - L29199DL1985PLC015796

Fax.no. 0120-2462675 E-Mail id: compsect@udtltd.com, Website: www.udtltd.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Re Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 12th day o November, 2020 at 12:15 PM to inter-alia :

Financial Results of the Company for the 2nd quarter and half year ended 30th September, 2020 along with Limited Review Report of Statutory Auditors This information is also available on the

To consider and the approve un-audited

website of the company viz. www.udtltd.com and the website of the Stock Exchange where the Company's shares are listed viz. BSE Limited and national Stock Exchange of India

Date: 04.11.2020

For United Drilling Tools Ltd P.K. Oiha Place: Noida

Company Secretary

PRECISION ELECTRONICS LIMITED Regd. Office: D-1081, New Friends Colony New Delhi-110025 CIN: L32104DL1979PLC009590 Notice of Board Meeting

Notice is hereby given that pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, meetin of Board of Directors of the Company sha

be held on Wednesday, November 11, 2020 at 12.00 pm to consider inter-alia the Un-Audited Financial Results of the Compan for the quarter ended September 30, 2020 The notice is also available on Company's vebsite www.pel-india.com and Bombay stock exchange www.bseindia.com. For Precision Electronics Limited

सचना में शामिल जानकारी कम्पनी की वेबसाईट Veenita Pur Company Secretary

Date: 05.11.2020 & Compliance Office आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड सीआईएन : L74140DL1991PLC340407

के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 ई-मेल: imcapitalslimited@gmail.com वेबसाइट : www.imcapitals.com

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा अपेक्षा

पंजीकृत कार्यालय : 817, अंतरिक्ष भवन

विनियमन, 2015 के क्लॉज 29 के अनुपालन में रतद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में मंगलवार, 10 नवम्बर 2020 कं आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं वे अनंकेक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार एव अनमोदन किए जाएंगे।

पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम 2015 तथा इन्सायडरों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन निगरानी एवं रिपोर्ट के लिए कस्पनी की आचा संहिता के अनुसार कम्पनी की प्रतिभृतियों म कारोबार के लिए ट्रेडिंग विण्डो 01 अक्टूबर 2020 से परिणामों की घोषणा/प्रकाशन के 48 घंटे बा तक बंद रहेंगे।

आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड के लिये तिथि : 03.11.2020 शिखा मेहरा चावला

स्थान : नई दिल्ली (कम्पनी सचिव)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Share Cert. no. 1293 for

130 shares with Dist. No.: 160234-160363 under

Folio: 1293 in the name of Neeladri Bhattacharya and Gautam Bhattacharya in books of Artem

ledicare Services Ltd. regd. off. at Plot No.14

Sector-20, Dwarka, Delhi-110075 had been los

odge such claim with Company or its RTA Alanki

signments Ltd., at 205-208, Anarkali Complex

handewalan Extn., Delhi-110055, within 15 day

o issue Duplicate Share Certificate(s) to the

agistered holder(s).

NEELADRI BHATTACHARYA

र्डमर्जेन्ट इंडस्टियल सॉल्यशन्स लिमिटेड

Phones: (91) (11) 2378 2022, 2338 2592;

Fax: (91) (11) 2378 2806, 23381914;

प्रमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है वि

कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 11 नवम्बर, 2020 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30.09.2020

हो समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथ

समेकित वित्तीय परिणामीं पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे। यह जानकारी कंपनी की वेबसाईट www.ccsl.in तथा बम्बई स्टॉव

पंकज पीयूश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड

पंजी, कार्यालय: 314, तीसग्र तल, प्लॉट नं, 39 के साम-आर.जी. मॉल, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 CIN: L65990DL1982PLC256291

C-MAIL: info@pptinvestment.com

Website: www.pptinvestment.com सूचना तेबी (सूचीयन दायित्च तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 201:

के विनियमन 47 (1) (ए) तथा 33 के अनुपालन में एतद्हार सूचित किया जाता है कि पंकज पीयूश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट

लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 11 नवम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में

आयोजित की जायेगी जिसमें 30 सितम्बर, 2020 को समाप

तिमाही एवं छमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम तथा अध्यक्ष व क्तारा दुन छमाछ क अनकाक्षत वित्तीय परिणाम तथा अध्यक्ष व मनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार तथा अनुमोदन कि ॥एंगे।

आएं। आगे विवरण कम्पनी की वेबसाईर vww.pptinvestment.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईर vww.bseindia.com पर उपलब्ध है।

पलेयर फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड

गंजीकृत कार्यालय : 4346/4सी, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली – 110002

CIN: L65990DL1984PLC019635

पुराना एतद्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1)(के) के अनुसरण में निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 11 नवस्त, 2020 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिएमों अन्य बातों के साध—साध 30 सितस्य, 2020 तिमाडी और छमाडी के लिए अलेखापरिक्षित वित्ताश परिणामों पर विचार कर उन्हें रिकाई में किया जाएगा।

किश्ति सूचना एवं वित्तीय परिणामों की प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.flarefinanceindia.com और स्टॉक एक्सयेंज वेबसाइट www.msei.in पर मी

ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड

सीआईएन : L67120DL1992PLC048983 पंजी. कार्या. : 487/63, 1ला तल, नेशनल मार्केट,

पीरागढ़ी, नई दिल्ली-110087

फोन नं. : 011-45588275

विसाइट : www.urjaglobal.in ई-मेल : cs@urjaglobal.in

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 47 वे

ानुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ऊर्जा ग्लो

निमटेड कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार,

नवम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्जा. में कंपनी के पंजीकृ कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के सा

ो 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही/छमाही के अंकेदि

वतीय परिणामों पर विचार कर उसे अभिलेख में लिए जाएं

. www.urjaglobal.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाई

ww.bseindia.com एवं www.nseindia.com

ऊर्जा ग्लोबल लि. के लि

हस्ता.

. फ्लेयर फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 4.11.2020

स्थान : नई दिल्ली

rom date of this notice, after which Co, will proce

my person(s) has/have claim on said shares shou

रैम्सन्स प्रॉजेक्टस लिमिटेड CIN: L74899DL1994PLC063708 पंजी. कार्या.: 815, 8वाँ तल, हेमकुन्ट चैम्बर्स, 89 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019

Website: www.ramsonsprojects.com mail ID: corprelations@ra

सेबी (सचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा विनयमन 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन २० के अनपालन में एतदहारा सचित किय जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 9 नवम्बर, 2020 को कम्पनी के कॉर्पीरे कार्यालय एसएएस टावर, सेक्टर-38, गुरुग्राम-12200 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साः 30.9.2020 को समाप्त छमाही के लिये कम्पनी वे अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा अध्यक्ष की अनुमति किसी अन्य विषय पर विचार तथा अनुमोदन किये

रैम्सन्स प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड के लिरे

मेघा गोयर

G. K. CONSULTANTS LIMITED Read, Office: 302, G. K. House, Tel: +91-11-26489431 Fax: +91-11-26489299

In terms of provisions of Regulation 47(1)(a) in read with Regulation 29(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors o the Company will be held on Wednesday, the 11th November, 2020 at 3.30 P.M. at the Registered Office of the Company to consider and to take on record the Quarterly

Unaudited Financial Results as or

30th September, 2020 pursuant to the



सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नं. ४. सेक्टर—10. द्वारका नई दिल्ली—110075, hogad@pnb.co.in; hoinsurance@pnb.co.in

सम्पूर्ण जोखिम बीमा पॉलिसी हेतु बोलियाँ प्रेषित करने के लिए सूचना

पंजाब नैशनल बैंक, भारत की पंजीकृत सामान्य बीमा कंपनियों से **कारोबारिक** प्रतिनिधियों के लिए विशेष आकस्मिकता - सम्पूर्ण जोखिम बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण पर सीलबंद बोलियां आमंत्रित करता है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in/

Tender.aspx पर जाएं। इच्छुक सामान्य बीमा कंपनियां अपनी बोलियाँ **11 नवंबर 2020** को अप० 3:00 बजे तक या इससे पहले मुख्य प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, सामान्य सेवाएँ प्रशासन

प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लाट सं ४, सेक्टर—10, द्वारका, नई दिल्ली—110075 को प्रेषित करें। उपर्युक्त के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र/विस्तार की तिथि/स्पष्टीकरण केवल

बोलीदाताओं द्वारा नियमित रूप से देखी जा सकती है। मुख्य प्रबन्धक, (011-28044751) 04.11.2020

सूचना

www.ramsonsprojects.com) पर भी उपल

स्थानः गरुग्राम

187-A, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110 065

CIN: L74140DL1988PLC034109 NOTICE

Regulation 33 of LODR Regulations. G. K. CONSULTANTS LIMITED

CS. Shilpa Verma

Place : New Delhi Company Secretary
Date : 04.11.2020 FCS: 10105



कारोबारिक प्रतिनिधियों के लिए विशेष आकस्मिकता -

हमारी वेब साइट https://www.pnbindia.in पर जारी किया जाएगा जो कि इच्छुक

सार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी मे रूपांतरण के लिए

पत्र में प्रकाशित करने के लिए विज्ञ क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम

2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले प्रॉक्ट्स लिमिटेड जिसका पंजीक

है: डी-11, एस.एम.ए. को-ऑप इंडस्टियल एरिया, जीटी करनाल रोड, नः देल्ली-110033 के मामले में

रतदद्वारा आम जनता को सचित किया जाता है कि य कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पन अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कस्पर्न को सक्षम बनाने के लिये 12 अक्टूबर, 2020 व आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के अनुसार कम्पनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पन

में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है। कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से याँ कसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीरं वर्णित पते, पर पंजीकत कार्यालय में आवेदक कंपनं को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाश की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रका तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए ए शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्री निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली 110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाव से भेजें:

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर हस्ता.

तिथि: 5.11.2020 आशीष जैन स्थानः नर्ड दिल्ली DIN: 00849914 डी-11, एस.एम.ए. को-ऑप इंडस्ट्रियल एरिया जीटी करनाल रोड, नई दिल्ली-110033

तारीख व समय

तारीख व समय

दिल्ला ट्रास्का लिमटड

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

रा.रा.क्षे. दिल्ली का सरकारी उपक्रम डेल्ही ट्रांस्को लिमिटेड निम्नलिखित कार्यों हेतु आनलाइन निविदाएं आमन्त्रित

(1) निविदा सं. T19P107912 : डीजीएम(टी)ओएण्डएम साउथ सर्किल, ईस्ट सर्किल तथा मेहरौली स्टोर वे

ाहत विभिन्न 220 केवी तथा 400 केवी ग्रिड उपकेन्द्रों पर साइनेज बोर्ड (मेन गेट, रूफ टॉप तथा डाइरेक्शन)

की आपूर्ति/फिक्सिंग/इंस्टालेशन। (2) निविदा सं. T20P108412: 220 केवी महारानी बाग पर कंट्रोल सेंटर

हेतु रिनोवेशन के लिए सम्बद्ध उपकरण तथा सॉप्टवेयर सहित 3x2 70 इंच डीएलपी की खरीद एवं सिविल कार्य

(3) निविदा सं. T19P108122: 220 केवी आईपी सब स्टेशन में स्पेयर की खरीद तथा संस्थापित आइसीलेटर

की ओवरहॉलिंग।(4) निविदा सं. T20P108398: जीएम(ओएण्डएम)-2 सर्किल के 220 केवी सब स्टेशन

में 30 मीटर 350 वाट एलईडी आधारित हाई मास्ट लाइटिंग सिस्टम सहित आपूर्ति, संस्थापन तथा कमिशनिंग

(5) निविदा सं. T20P108396: प्रबन्धक ओएण्डएम ई–4 के अधीन 220 केवी सब स्टेशन साउथ वजीराबार

में वर्तमान 66 केवी बस बार दिवन जेब्रा से क्वाड जेब्रा में परिवर्तन। संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि

(30.11.2020 क्रम सं. 1 हेतु), (30.11.2020 क्रम सं. 2 हेतु), (07.12.2020 क्रम सं. 3 हेतु)

(24.11.2020 क्रम सं. 4 हेतु) तथा (02.12.2020 क्रम सं. 5 हेतु) 1.00 बजे अप.। निवदा दस्तावेज एव

अन्य विवरण डाउनलीड करने के लिए कृपया दिल्ली सरकार की वेबसाइ-https://govtorocurement.delhlgov.in निविदा आईडी सं. क्रमशः 2020_DTL_195938_1

2020 DTL 196098 1 तथा डीटीएल वेबसाइट www.dtl.gov.in युनिक नं. क्रमश: DTL-7923-

231020, DTL-7927-271020, DTL-7922-231020, DTL-7929-271020 तथा DTL

2020_DTL_196068_1, 2020_DTL_1 95939_1, 2020_DTL_196082

agair जगन लैम्प्स लिमिटेड पंजी. कार्या.: नरेला पियाऊ, मनिहारी रोड, कुण्डली, जिला- सोनीपत, हरियाणा-131028 CIN: L31501HR1993PLC033993

11.11.2020 को आयोजित की जाने बोर्ड की बैठक की सचना एतदद्वारा सचित किया जाता है कि सेबी (सचीय दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के अनुपालन में जगन लैम्प्स

अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2020 कं समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये कम्पनी वे अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे। जगन लैम्प्स लिमिटेड के लिये

तिथि: 4 नव. 2020 संदीप यादव स्थानः कुण्डली (सोनीपत) कम्पनी सचिव

A F ENTERPRISES LIMITED Regd. Office: DSM-334. DLF Tow Shivaji Marg, NEW DELHI-110015 CIN: L18100DL1983PLC016354

Pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 Notice s hereby given that the Board Meeting o the Company will be held on Thursday 12th November, 2020 at the factory office at Plot No. 8, Sector-5 Main Mathura Road, Ballabgarh, Faridabad 121006 to consider and approve the Unaudited

ABHISHEK SINGH

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी तरफ से उप मुख्य इंजीनियर / निर्माण– I, उत्तर रेलवे स्टेट एंट्री रोड़, नई दिल्ली निम्नलिखित कार्य के लिये एक पैकेट प्रणाली के अंतर्गत –निविदा आमंत्रित करते हैं:-

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण, उत्तर रेलवे, कश्मीरी कार्य का नाम गेंट, दिल्ली कार्यालय परिसर में अधिशासी इंजीनियर/ निर्माण / प्रधान कार्यालय के अधीन सीनियर सेक्शन इंजीनियर/निर्माण/जेनिटर के सेक्शन में मरम्मत कार्य योग्य बनाने हेतु आउटसोर्सिंग (द्वितीय 2. कार्य की अनुमानित लागत रुपये 54.51 लाख (रुपये चौवन लाख इक्यावन हजार मात्र) कार्य पूरा करने की अविध 24 (चौबीस) माह घरोहर राशि जो जमा

रुपये 1,09,000/— (रुपये एक लाख नौ हजार केवल) करनी है विस्तृत निविदा सूचना एवं विस्तृत ई निविदा सूचना उत्तर रेलवे की वेबसाइट www.nr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर निविदा प्रपत्र दिनांक 05.11.2020 to 25.11.2020 होगी।

ई टेंडर जमा करने की निविदा आई आर ई पी एस की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर दिनांक 11.11.2020 से 25.11.2020 को 11.30 बजे तक अपलोड की जा सकती है। निविदा खुलने की निविदा प्रपत्र (D-2) अपलोडिंग बंद होने के तुरंत बाद

दिनांक 25.11.2020 को 11.30 बजे खोली जाएगी। सं.: 50-ए.जी./नि./क.गेट/दिल्ली दिनांक 29.10.2020 2422/20 ों की सेवा में मुख

> साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेर्ड (पूर्ववर्ती चिरायु ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालयः 37, दूसरा तल, रानी झांसी रोड,

सूचना तद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में, अन्य विषयों के साथ 30 सितंबर, 2020 को समारत तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और रिकार्ड पर लेने तथा अन्य कोई व्यवसाय जो आवश्यक समझा जाए, के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बुधवार, दिनांक 11 नवंबर, 2020 को अपराहन 04.30 बजे आयोजित की

बोर्ड के आदेशानुसार हिते **साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड** हस्ता./— (ताजियर कौर) प्रबंध निवेशक ढीआईएन: 06799570 24 / 27 फ्रंट साइ वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली—11008

जेआईटीएफ इन्फ्राल्जिस्टिक्स लिमिटेड

जिला मधुरा - 281403

सीआईएन : L60231UP2008PLC069245

सूचना

तद्द्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व और

प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के

विनियम 47 के अनसरण में सचना दी जाती

बैठक गुरूवार, 12 नवंबर, 2020 को जिंदल

आईटीएफ केंद्र, 28, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली–110015., में आयोजित की जाएगी,

जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितंबर, 2020

कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक

PR/20-21/28 पंजी. कार्यालय : ए-1, यूपीएसआईडीसी उपर्युक्त निविदा/ई-निविदा से सम्बन्धित सभी शुद्धिपत्र/संयोजन/संशोधन/समय-सीमा विस्ता/स्पष्टीकरण,

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER D.W. AND S. SWARNREKHA HEADWORKS DIVISION, RANCHI

CORRIGENDUM (Vth)

E-Tender published through P.R.No-233466(D.W&S.D)/20-21 & Corrigendum PR No.-234488(D.W&S.D)/20-21, Tender reference no. DWSD/Headworks/-O&M-01/20-21 dated 28/09/2020, is hereby extended due to Unavoidable Circumstances.

<u>NIT</u>			
Sl.	Description	Earlier	Revised(Replaced by
1	Last date /Time for receipt of Bid	03.11.2020 / 05:00 PM	05.11.2020 / 05:00 PM
2	Last date/time and Offices for receipt of EMD/cost of B.O.Q	i) O/o the Regional Chief Engineer, D.W. & S. Department, Ranchi Zone Doranda, Ranchi, 05.11.2020 upto 05:00 PM	i) O/o the Regional Chief Engineer, D.W. & S. Department, Ranchi Zone Doranda, Ranchi, 07.11.2020 upto 01:00 PM
		ii) O/o the Superintending Engineer, D.W. & S. Urban Circle, Doranda, Ranchi, 05.11.2020 upto 05:00 PM	ii) O/o the Superintending Enginee D.W. & S. Urban Circle Doranda, Ranchi, 07.11.2020 upto 01:00 PM
		iii) O/o the Executive Engineer, D.W. & S. Swarnrekha Headworks Division, Ranchi, 05.11.2020 upto 05:00 PM	iii) O/o the Executive Engineer, D.W. & S. Swarnrekha Headworks Division, Ranchi, 07.11.2020 upto 01:00 PM
3	Date of opening of Tender	06.11.2020 / 11:00 AM	07.11.2020 / 05:00 PI

All other items of the published NIT will remain the same Sd/- (BINOD KUMAR) PR.NO.235313 Drinking Water and Sanitation(20-21):D EXECUTIVE ENGINEER

सचीबद्ध हैं।

एसीएस : 19819

उत्तर पश्चिम रेलवे निविदा सूचना संख्याः एस/2020/32 भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्धक, तृतीय तल, उठ पठ रेलवे प्रधान कार्यालय, जवाहर सर्किल के पास, मालवीय नगर जयपुर— 302017 निम्नलिखित मदो हेतु खुली ई—निविदायें www.ireps.gov.in में सभी खुली ई निविदायें 14.25 बजे बंद कर दी जायेंगी।

खुलने की निविदा सं. अल्प विवरण/ड्रॉइंग यूनिट तिथि 30202244 ब्रेक डिस्क फॉर व्हील सेट 232 नग 10.11.20 30202172 सैट ऑफ प्रिविलिंग टार्क टाईप हेक्सागन नट्स विद (नॉन मेटेलिक इन्सर्ट 653 सेट 17.11.20 हाईड्रोफिलिक फोल्डेबल आर्केलिक पोस्टेरियर चेम्बर आईओएल नग 17.11.20 82202838 1250 ओवरहालिंग किट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व विद आरएलबी एलएचबी कोचेज कन्सिस्टिंग 31 आईटमस 30203067 162 सेट 17.11.20 50185344B | प्रोक्योरमेंट ऑफ रिले क्यूबीसीए 1 958 नग 19.11.20 82201263 सीटाग्लीप्टीन फॉस्फेट 100 एमजी टेबलेट नग 20.11.20 6. 179000 व्हीलसेट अर्थिंग इक्यूपमेंट 7 30202634 656 नग 24.11.20 मस्ट चेंज आईट्म फॉर ब्रेक केलीपर एजपर एफ्टीआरटीआईएल नग 24.11.20 30203330 109 पॉर्ट नम्बर एफटी 0051411-के75 फॉर एलएचबी कोचेज 30203028 रेडियेटर असेम्बली 07 नग 24.11.20 फ्लेप डोर अरेन्जमेंट फॉर बीओएक्सएनएचएल 10. 30202822 868 नग 25.11.20 पीवीसी फ्लोरिंग (विनायल) विडद 1620 एमएम मिनिमम लैन्थ 11. 70201822D 46573 वर्ग मीटर 26.11.20 14 मीटरर्स ऑफ थिकनेस 2 एमएम रोल 12. 70201153 कम्प्रेग बोर्ड टू साईज 2850x1220x12 एनएम 1287 नग 27.11.20

फर्म को उक्त साइट पर रजिस्टर्ड करें। (2) 25 लाख से नीचे के विज्ञापित निविदा, सीमित निविदा, विशेष सीमित निविदा एवं कम मूल्य की निविदा में भाग लेने के लिए देखने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जायें। उप मुख्य सामग्री प्रबंधक-तृतीय

हमें 🛘 🕊 🗅 /NWRailways 🔳 NWRailways_पर फॉलो करें

को समाप्त दूसरी तिमाही / छमाही हेतु कंपनी के लिए अ-लेखापरीक्षित (स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड) वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए जाएंगे। सेबी (अंतरंगी व्यापार निषेध) विनियमावली, 2015 के तहत अंतरंगी व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता के अनसरण में. व्यापार

बंड एरिया नंदर

खिड़की, उपरोक्त वित्तीय परिणामों के प्रकटन से 48 घंटे तक के लिए बंद रहेगी। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट <u>www.jindalinfralogistics.com</u> पर तथा स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइटस नामतः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर

वास्ते जेआईटीएफ इन्फ्रालिजस्टिक्स लिमिटेड के लिए हस्ता/-आलोक कुमान स्थान : नई दिल्ली कम्पनी सचिव

सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा सूचना मंडार विभाग ई प्रोक्योरमेंट के द्वारा दिनांकः 03.11.2020

फायर रिटरडेंट विनायल कोटेड अपहोलेस्टरी फेबरिक आर्टिफिसियल मीटर 13. 70201635 124502 27.11.20 (1) इच्छुक निविदाकर्ता हमारी वेबसाइट ireps.gov.in पर सामग्री का पूरा विवरण /स्पेसिफिकेशन/निविदा/बयाना राशि/निविद फार्म का मूल्य और अन्य जानकारी देख सकते है। सभी निविदाकर्ताओं से निवेदन है की अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करें तथा अपनी

लिमिटेड के बोर्ड की एक बैठक बुधवार, 1 नवम्बर, 2020 को आयोजित की जाएगी जिसमें

हस्ता./-

NOTICE

Financial Results for the Quarter and Half year ended 30th September, 2020. For A. F. ENTERPRISES LIMITED

Date: 04/11/2020

Whole Time Director DIN: 03603706